

— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर

संख्या:- 43/2020

दिनांक:- 27.09.2020

थाना हलिया व आबकारी की संयुक्त टीम की कार्यवाही में नकली/अपमिश्रित शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, कुल 500 लीटर स्पिरिट व 400 लीटर अपमिश्रित शराब, बनाने के उपकरण 02 अदद पैकिंग मशीन सहित भारी मात्रा में खाली शीशी, नकली लेबल, ड्रम, तथा सफारी वाहन बरामद (कुल बरामदगी की कीमत करीब 20 लाख)

अवैध मादक पदार्थों के निर्माण विपणन व तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में इलेक्ट्रानिक व धरातलीय अभिसूचना संकलन कर थाना हलिया व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.09.2020 को समय 04.15 बजे थाना हलिया अंतर्गत रतेह बाजार के पास बबुरा खुर्द गांव की जाने वाली सड़क पर राजेन्द्र चौरसिया पुत्र राम कैलाश चौरसिया के मकान में छापेमारी कर कमरे में चल रही अपमिश्रित/नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर नकली ब्लू लाइम क्यू आर कोड-20744 अदद, ब्लू लाइम रैपर-2000 अदद, अपमिश्रित शराब के परिवहन में प्रयुक्त होने वाली सफारी वाहन यूपी 70 बीबी 9999 में लदी तैयार 268 शीशी (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 48 लीटर नकली/अपमिश्रित शराब, खाली शीशी-3300 अदद, ढक्कन सील करने की लोहे की मशीन-02 अदद, पेटी बनाने के गत्ते -58 अदद, 50 लीटर के 17 अदद भरे हुए ड्रम जिसमें 07 ड्रम में तैयार अपमिश्रित शराब कुल 350 लीटर व 10 ड्रम में 500 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया तथा, मौके से राजेन्द्र चौरसिया पुत्र रामकैलाश चौरसिया निवासी रतेह थाना हलिया जनपद मीरजापुर व संजय जायसवाल उर्फ संजू जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी रानीबांग थाना को0 कटरा मीरजापुर एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति अधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहे। उक्त के संबंध में थाना हलिया पर मु0अ0स0-188/2020 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 419,420,255,256,467,468,471,272 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

नाम पता फरार अभियुक्तगण--

1-राजेन्द्र चौरसिया पुत्र रामकैलाश चौरसिया निवासी रतेह थाना हलिया जनपद मीरजापुर

2-संजय जायसवाल उर्फ संजू जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी रानीबांग थाना को0 कटरा मीरजापुर

बरामदगी का समय व स्थान--

दिनांक 27.09.2020 को समय लगभग 04.15 बजे, रतेह बाजार के पास बबुरा खुर्द गांव की जाने वाली सड़क के पास

विवरण बरामदगी—

1-नकली ब्लू लाइम क्यू आर कोड -20744 अदद, ब्लू लाइम रैपर-2000 अदद

2-सफारी यूपी 70 बीबी 9999 व उसमें लदी 268 शीशी (प्रत्येक 180 एमएल) (कुल 48 लीटर नकली/अपमिश्रित शराब)

3-खाली शीशी-3300 अदद.

4-ढक्कन सील करने की लोहे की मशीन-02 अदद.

5-गत्ता-58 अदद.

6-50 लीटर के 17 अदद भरे हुए ड्रम जिसमें 07 ड्रम में तैयार अपमिश्रित शराब (कुल 350 लीटर) व 10 ड्रम में 500 लीटर स्पिरिट

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

थाना हलिया पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 अमित कुमार सिंह थाना हलिया

2-उ0नि0 मोती सिंह थाना हलिया

3-का0 विनय यादव थाना हलिया

4-का0 श्रीनिवास यादव थाना हलिया

5-का0 अखिलेश यादव थाना हलिया

6-का0 सुशील यादव थाना हलिया

आबकारी टीम-

1- निरीक्षक प्रमेचन्द्र क्षेत्र सदर, मीरजापुर।

2-निरीक्षक हरिशचन्द्र, मीरजापुर।

3-निरीक्षक कुवर विशाल भारती क्षेत्र चुनार मीरजापुर।

4-हे0का0 रमेश कुमार मौर्या मीरजापुर।

5-हे0का0 राजबहादुर मीरजापुर।

6-हे0का0 प्रणय कुमार कर्ण मीरजापुर।

7-का0 पंकज दुबे मीरजापुर।

8-का0 रंजीत कुमार मीरजापुर।

